

Date: June 26, 2024

To

The BSE Limited Phiroze Jeejeebhoy Towers Dalal Street, Mumbai-400001 Scrip Code: 540203 The National Stock Exchange India Limited Exchange Plaza, Bandra Kurla Complex Bandra(E), Mumbai-400051 NSE Symbol: SFL

Subject: Publication of notice of 52^{nd} Annual General Meeting to be held over Video Conference

Dear Sir/Madam,

Please find attached Newspaper advertisement of notice of Fifty-Second (52nd) Annual General Meeting (AGM).

The newspaper publication are also available on our website at the following link https://www.sheelafoam.com.

Thanking you. Yours faithfully,

For Sheela Foam Limited

(Md. Iquebal Ahmad)
Company Secretary and Compliance Officer



GRA	ND TOTAL	14936	100.00	127005125	100.00	1082626				8 2	618	100.00	1082626	100.00	0
1 Add	fitional share w	vill be allotte	d to success	ful allotees from	Sr no. 1 to	63 = 508 shape	ares in ratio	of 254:309	254	309			508		508
-	Additional s	hare will be	allotted to	successful allo	tees from	Sr no. 1 to 6	63 = 618	shares	1	1			618		618
63	125000	1	0.01	125000	0.10	73	1750	1750	0	0	0	0.00	0	0.00	-73
62	83250	11	0.01	83250	0.07	73	1750	1750	0	0	0	0.00	0	0.00	-73
61	82500	1	0.01	82500	0.06	73	1750	1750	0	0	0	0.00	0	0.00	-73
60	80000	1	0.01	80000	0.06	73	1750	1750	0	0	0	0.00	0	0.00	-73
59	79125	2	0.01	158250	0.12	145	1750	1750	0	0	0	0.00	0	0.00	-14
58	75000	1	0.01	75000	0.06	73	1750	1750	0	0	0	0.00	0	0.00	-73
57	62500	5	0.03	312500	0.25	362	1750	1750	0	0	0	0.00	0	0.00	-36
56	50000	- 1	0.01	50000	0.04	73	1750	1750	0	0	0	0.00	0	0.00	-7
55	40125	1	0.01	40125	0.03	73	1750	1750	0	0	0	0.00	0	0.00	-7:
54	36000	1	0.01	36000	0.03	73	1750	1750	0	0	0	0.00	0	0.00	-73
53	35000	- 4	0.01	35000	0.03	73	1750	1750	0	0	0	0.00	0	0.00	-73
52	33500	1	0.01	33500	0.03	73	1750	1750	0	0	0	0.00	0	0.00	-73
51	31625	4	0.01	31625	0.02	73	1750	1750	0	0	0	0.00	0	0.00	-73
50	30000	1	0.01	30000	0.02	73	1750	1750	0	0	0	0.00	0	0.00	-73
49	29250	2	0.01	58500	0.05	145	1750	1750	0	0	0	0.00	0	0.00	-14
48	25125	2	0.01	50250	0.04	145	1750	1750	0	0	0	0.00	0	0.00	-14
47	25000	4	0.03	100000	0.08	290	1750	1750	0	0	0	0.00	0	0.00	-29
46	21000	4	0.01	21000	0.02	73	1750	1750	0	0	0	0.00	0	0.00	-7:
45	20875	1	0.01	20875	0.02	73	1750	1750	0	0	0	0.00	0	0.00	-73
44	20250	1	0.01	20250	0.03	73	1750	1750	0	0	0	0.00	0	0.00	-73
43	20000	2	0.01	40000	0.03	145	1750	1750	0	0	0	0.00	0	0.00	-14
41	18250 18750	2	0.01	18250 37500	0.01	72 145	1750 1750	1750 1750	0	0	0	0.00	0	0.00	-14
40	17500	1	0.01	17500	0.01	72	1750	1750	0	0	0	0.00	0	0.00	-72
39	16750	4	0.03	67000	0.05	290	1750	1750	0	0	0	0.00	0	0.00	-29
38	16625	2	0.01	33250	0.03	145	1750	1750	0	0	0	0.00	0	0.00	-14
37	16500	5	0.03	82500	0.06	362	1750	1750	0	0	0	0.00	0	0.00	-36
36	16000	3	0.02	48000	0.04	217	1750	1750	0	0	0	0.00	0	0.00	-21
35	15625	1	0.01	15625	0.01	72	1750	1750	0	0	0	0.00	0	0.00	-72
34	15000	2	0.01	30000	0.02	145	1750	1750	0	0	0	0.00	0	0.00	-14
33	14125	6	0.04	84750	0.07	435	1750	1750	0	0	0	0.00	0	0.00	-43
32	13875	1	0.01	13875	0.01	72	1750	1750	0	0	0	0.00	0	0.00	-72
31	13750	_1	0.01	13750	0.01	72	1750	1750	0	0	0	0.00	0	0.00	-72


D. Allotment to Eligible Employees Bidding in the Employee Reservation Portion (After Rejections) (including ASBA Applications)

The Basis of Allotment to the Eligible Employees Bidding in the Employee Reservation Portion, who have bid at the Issue Price of ₹120 was finalized in consultation with NSE. This category has been subscribed to the extent of 0.32 times. The total number of Equity Shares allotted in this category is 5,50,000 Equity Shares to 82 successful applicants. Allotment under the Eligible Employee Category have been split in 2 categories (i) applications upto 2 Lakhs (ii) applications above 2 Lakhs and up to 5 Lakhs. The category-wise details of the Basis of Allotment for Employee up to 2 Lakhs are as under

SI	No. of Shares	No. of Applica-	% of	Total No. of Shares ap-	% to	Propor- tionate		n per Ap- ant	Rat	io of	Number of successful	% of	Total No. of shares	% of	Surplus/ Deficit
no.	applied for (Category wise)	tions Re- ceived	Total	plied in each category	Total	shares available	Before Rounding off	After Rounding off	2000	ees to cants	applicants (after rounding)	Total	allo- cated/ alloted	Total	(13)-(7)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(1	0)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1	125	17	20.73	2125	1.22	2125	125	125	1	1	17	20.73	2125	1,22	0
2	250	3	3.66	750	0.43	750	250	250	1	1	3	3.66	750	0.43	0
3	375	3	3.66	1125	0.65	1125	375	375	1	1	3	3.66	1125	0.65	0
4	500	1	1.22	500	0.29	500	500	500	-1	1	1	1.22	500	0.29	0
5	625	2	2.44	1250	0.72	1250	625	625	1	1	2	2.44	1250	0.72	0
6	750	2	2.44	1500	0.86	1500	750	750	1	1	2	2.44	1500	0.86	0
7	875	4	4.88	3500	2.01	3500	875	875	-1	1	4	4.88	3500	2.01	0
8	1000	1	1.22	1000	0.58	1000	1000	1000	-1-	1	-1-	1.22	1000	0.58	0
9	1250	4	4.88	5000	2.88	5000	1250	1250	- 1	1	4	4.88	5000	2.88	0
10	1375	2	2.44	2750	1.58	2750	1375	1375	. 1	1	2	2.44	2750	1.58	0
11	1500	2	2.44	3000	1.73	3000	1500	1500	1	1	2	2.44	3000	1.73	0
12	1625	2	2.44	3250	1.87	3250	1625	1625	. 1	. 1	2	2.44	3250	1.87	0
13	1750	4	4.88	7000	4.03	7000	1750	1750	. 1	. 1	4	4.88	7000	4.03	0
14	3125	1	1.22	3125	1.80	3125	3125	3125	1	1	1	1.22	3125	1.80	0
15	3250	1	1.22	3250	1.87	3250	3250	3250	. 1	1	1	1.22	3250	1,87	0
16	3500	2	2.44	7000	4.03	7000	3500	3500	1	1	2	2.44	7000	4.03	0
17	4000	2	2.44	8000	4.60	8000	4000	4000	1	1	2	2.44	8000	4.60	0
18	4125	29	35.37	119625	68.85	119625	4125	4125	1	1	29	35.37	119625	68.85	0
GR	AND TOTAL	82	100.00	173750	100.00	173750					82	100.00	173750	100.00	0

E. Allotment to QIBs (After Technical Rejections)

Allotment to QIBs, who have bid at the Issue Price of ₹120 per Equity Share or above, has been done on a proportionate basis in consultation with NSE. This category has been subscribed to the extent of 24.95 times of Net QIB portion. As per the SEBI Regulations.



F. Allotment to Anchor Investors (After Technical Rejections)

The Company, in consultation with the BRLM, have allocated 31,35,000 Equity Shares to Four (4) Anchor Investors (through 4 Anchor Investor Application Forms) at an Anchor Issue Issue Price at ₹120.00 per Equity Share in accordance with SEBI ICDR Regulations. This represents 60% of the QIB portion.

CATEGORY	FPI/BANKS	MF'S	IC'S	NBFC'S	AIF	FPC	VC'S	TOTAL
ALLOTMENT	3	× .	(3)	14	1.		89	4
The Board of Directors of	of our Company at i	its meeting held	on June 24, 202	4 has taken on r	ecord the basis of	allotment of Fourty	Shares approved	by the Designated

Stock Exchange, being NSE and has allotted the Equity Shares to various successful applicants. The Allotment Advice Cum Refund Intimation and/or notices have been dispatched to the address of the investors as registered with the depositories. Further, instructions to the SCSBs have been issued for unblocking of funds and transfer to the Public Issue Account on June 25, 2024 and the payments to non-syndicate brokers have been issued on June 25, 2024. In case the same is not received within ten days, investors may contact the Registrar to the Issue at the address given below. The Equity Shares allotted to the successful allottees have been uploaded on June 25, 2024 for credit into the respective beneficiary accounts subject to validation of the account details with the depositories concerned. The Company has filed the Listing application with BSE and NSE on June 25, 2024. The Company has received the listing and trading approval from BSE & NSE, and trading will commence on June 26, 2024. Note: All capitalized terms used and not defined herein shall have the respective meanings assigned to them in the Prospectus.

Contact Person: Mr. Babu Raphael C | SEBI Registration Number: INR000001385

INVESTORS, PLEASE NOTE

These details of the Allotment made was hosted on the website of Registrar to the Issue, Bigshare Services Private Limited at www.bigshareonline.com

All future correspondence in this regard may kindly be addressed to the Registrar to the Issue quoting full name of the First/ Sole applicant, Serial number of the Bid cum Application form number, Bidders DP ID, Client ID, PAN, date of submission of Bid cum Application Form, address of the Bidder, number of Equity Shares bid for, name and address of Designated Intermediary where the bid was submitted and payment details at the address given below:

REGISTRAR TO THE ISSUE

BIGSHARE SERVICES PRIVATE LIMITED

S6-2, 6th Pinnacle Business Park, Mahakali Caves Road, Next to Ahura Centre, Andheri East, Mumbai – 400093 Maharashtra, India | Tel: +91 22 6263 8200 | Email: ipo@bigshareonline.com Investor Grievance Email: investor@bigshareonline.com | Website: www.bigshareonline.com

> For AKME FINTRADE (INDIA) LIMITED On behalf of Board of Directors

> > Mr. Manoj Kumar Choubisa,

Date: June 25, 2024 Place: Udaipur, Rajasthan

Company Secretary and Compliance Officer

THE LEVEL OF SUBSCRIPTION SHOULD NOT BE TAKEN TO BE INDICATIVE OF EITHER THE MARKET PRICE OF THE EQUITY SHARES ON LISTING OR THE BUSINESS PROSPECTS OF AKME FINTRADE (INDIA) LIMITED AKME FINTRADE (INDIA) LIMITED has filed a prospectus dated June 22, 2024 with the RoC. The Prospectus is available on the website of the SEBI at www.sebi.gov.in, and the website of Company at www.aasaanloans.com and the website of the National Stock Exchange of India Limited at www.

nseindia.com and the website of the BSE Limited at www.bseindia.com and the websites of the book running lead manager to the Issue, Gretex Corporate Services Limited at www.gretexcorporate.com. Any potential investor should note that investment in equity shares involves a high degree of risk and for details relating to such risks, please see the section titled "Risk Factors" beginning on page 34 of the Prospectus. The Equity Shares have not been and will not be registered under the U.S. Securities Act of 1933 (the "U.S. Securities Act") or any state securities

laws in the United States, and unless so registered, and may not be offered or sold within the United States, except pursuant to an exemption from, or in a transaction not subject to, the registration requirements of the U.S. Securities Act and applicable U.S. state securities laws. Accordingly, the Equity Shares are being offered and sold outside the United States in offshore transactions in reliance on Regulation S and the applicable laws of each jurisdictions where such offers and sales are made. There will be no public offering of the Equity Shares in the United States.

18.07.2024;1630 Hrs

Contracts - 011-66112222





TATA POWER

(Corporate Contracts Department) Sahar Receiving Station, Near Hotel Leela, Andheri (E), Mumbai 400 059, Maharashtra, India (Board Line: 022-67173188) CIN: L28920MH1919PLC000567

NOTICE INVITING EXPRESSION OF INTEREST

The Tata Power Company Limited hereby invites Expression of Interest from eligible parties for "Outline Agreement for Three Years for Tree Trimming Works for Transmission & Distribution Division, Trombay Plant and Trombay Colony at Mumbai. (Tender Ref. No.: CC25PMR012)" For details of pre-qualification requirements, purchasing of tender document, bid security, etc. please visit Tender section of our website (URL: https://www.tatapower.com/tender/tenderlist.aspx). Eligible parties willing to participate may submit their expression of interest along with the tender fee on or before 5" July 2024





Investor Services Cell. Corporate Office, 254-260, Avvai Shanmugam Salai Royapettah, Chennai- 600014.

PUBLIC NOTICE

Notice is hereby given that the following share certificates issued by the Bank is stated to have been lost or misplaced or stolen and the registered holder thereof / claimants thereto have applied to the Bank for issue of duplicate share certificate:

SI Name of Folio No of Certifi- Distinctive No.

31.	wante of	LOHO	NO. 01	Certini-	DISTINCTIVE NO.		
No.	Shareholder	No.	Shares	cate No.	From	To	
1	Jalaj Verma	2933	11	2948	608870586	608870596	
2	Krishna Kumar Yadav	32597	46	32612	609590481	609590526	
3	Vijai Naran Gupta	38158	69	38173	609916614	609916682	
4	Durg Vijaya Singh	32775	57	32790	609600515	609600571	
5	Manoj Kumar Mehta	39998	69	40013	610042879	610042947	
6	Atul Kumar Verma	42844	34	42859	610286513	610286546	
7	Pawan Kumar Agarwal41	17669	23	17684	609054939	609054961	
8	Rash Behari Ghosh, Alpana Ghosh	1240	149	1255	608839142	608839290	
9	Rajendra Prasad Gupta	29092	46	29107	609429613	609429658	
10	Rajendra Kumar (Late)	1141	103	1156	608828989	608829091	
11	Ritu Poddar	43107	149	43122	610297335	610297483	

The Bank has notified the Stock Exchanges, where these shares are listed, the loss of share certificate(s). Any person (s) who has / have any claim in respect of these share certificates should lodge such claim (s) with the Registrar & Share Transfer Agent of the Bank i.e. Cameo Corporate Services Ltd., Email investor@cameoindia.com, within 15 days of the publication of this notice, after which no claim will be entertained and Registrar will proceed to issue duplicate Shares.

Place: Chennai

For Indian Bank

Chennai

25.06.2024

Dina Nath Kumar Date: 25.06.2024 AGM & Company Secretary

♠ Indian Overseas Bank Information Technology Department

Central Office: 763, ANNA SALAI, CHENNAI-600002 Indian Overseas bank (IOB) invites bids for the following: **GOVERNMENT E-MARKET PORTAL- PROCUREMENT OF TALEND BIG DATA**

BID NO: GEM/2024/B/5004846 DATED 01.06.2024

PLATFORM TOOL

GOVERNMENT E-MARKET PORTAL- MANAGED SERVICES FOR DIGITAL ENGAGEMENT HUB AND ONLINE BANKING INTERNET BANKING SOLUTION BID NO: GEM/2024/B/5008567 DATED 03.06.2024

GOVERNMENT E-MARKET PORTAL- PROCUREMENT OF 12000 MONITORS AND 250 DESKTOPS

BID NO: GEM/2024/B/5008675 DATED 03.06.2024

GOVERNMENT E-MARKET PORTAL- SUPPLY, IMPLEMENTATION AND MAINTENANCE OF CHATBOT & WHATSAPP BANKING BID NO: GEM/2024/B/5025722 DATED 07.06.2024 GOVERNMENT E-MARKET PORTAL- TECHNOLOGY UPGRADE OF EXISTING

CISCO FIREWALL AT DC DR NLS BID NO: GEM/2024/B/5053507 DATED 14.06.2024

GOVERNMENT E-MARKET PORTAL- SUPPLY INSTALLATION AND MAINTENANCE OF 180 CISCO VIDEO IP TELEPHONE SOLUTION BID NO: GEM/2024/B/5053159 DATED 14.06.2024

GOVERNMENT E-MARKET PORTAL- SUPPLY, INSTALLATION, INTEGRATION AND MAINTENANCE OF BATCH JOB AUTOMATION AND PATCH CUM SERVER VULNERABILITY MANAGEMENT TOOL FOR THE

BID NO: GEM/2024/B/5073640 DATED 20.06.2024

The Above GEM Tender documents is also available and can be downloaded from the following websites www.iob.in & www.gem.gov.in For Tender details and future amendments, if any, keep referring to the following website www.gem.gov.in



UPDATER SERVICES LIMITED

Corp. Office & Regd. Office: 1" Floor, No.42, Gandhi Mandapam Road, Kotturpuram, Chennai - 600085 CIN: L74140TN2003PLC051955 Website: www.uds.in; Email: compliance.officer@uds.in

> Corrigendum to the Annual Report for FY 23-24 of Updater Services Limited

We invite your kind attention that, the Annual Report of the Updater Services Limited for the FY 23-24 has been sent through email on 14" June 2024. In the Annual Report we have observed some inadvertent errors. To correct those errors the corrigendum was produced to the Stock Exchanges through our letter dated 25" June 2024.

This corrigendum shall form part of the Annual Report 2023-24, which has been sent / dispatched to the shareholders on June 14, 2024. All other contents remain unchanged. The Annual Report after incorporating the changes is now available on the websites of the Company www.uds.in and Stock Exchanges www.bseindia.com and www.nseindia.com

> For Updater Services Limited Sandhya Saravanan Company Secretary and Compliance Officer



Sun Pharmaceutical Industries Limited Regd. Office: SPARC, Tandalja, Vadodara - 390 012, Gujarat, India

Corporate Office: Sun House, Plot No. 201 B/1, Western Express Highway, Goregaon - East, Mumbai - 400 063, Maharashtra, India Tel: 022-43244324 CIN: L24230GJ1993PLC019050 Website: www.sunpharma.com Email: secretarial@sunpharma.com

NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING

This is to inform that the Thirty Second (32") Annual General Meeting of the Members of the Company will be held on Monday, August 05, 2024 at 03:00 p.m. IST ("AGM") through Video Conferencing ("VC"), in compliance with all the applicable provisions of the Companies Act, 2013 read with enabling circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs.

The Notice of 32" AGM along with the Annual Report for the financial year 2023-24 will be sent by electronic mode to all the members whose email addresses are registered with the Company's Registrar and Transfer Agent, Link Intime India Private Limited ("RTA")/ Depositories. Members holding shares in dematerialized form, are requested to register their email address and mobile number with their Depository Participants and members holding shares in physical form are requested to furnish details of email address and mobile number to the RTA at rnt.helpdesk@linkintime.co.in. The Notice of 32" AGM along with the Annual Report for the financial year 2023-24 shall also be available on the website of the Company at www.sunpharma.com and on the websites of the Stock Exchanges i.e. BSE Limited at www.bseindia.com and the National Stock Exchange of India Limited at www.nseindia.com and on the website of the Central Depository Services (India) Limited ("CDSL") at www.evotingindia.com, being the agency appointed by the Company for providing e-voting and VC facility for the AGM.

Members will have an opportunity to cast their votes remotely on the business as set forth in the Notice of the 32" AGM through remote e-voting. The manner of remote e-voting for members holding shares in dematerialization form, physical form and members who have not registered their email addresses will be provided in the Notice of the AGM. The facility for e-voting will also be provided at the AGM and members attending the AGM, who have not cast their votes by remote e-voting, will be able to vote at the meeting.

The final dividend of Rs. 5/- per equity share of face value of Re.1/- each of the Company for the financial year 2023-24, as recommended by the Board of Directors, if approved by the members at the AGM, shall be paid to those shareholders who are holding shares as on the Record Date i.e. Friday, July 12, 2024, in accordance with the timelines under the Companies Act, 2013 electronically to the members who have updated their bank details for receiving dividend through electronic means. For members who have not pdated their bank details, are requested to update the same with their Depository Participants, where shares are held in dematerialized form, and with Company's RTA, where the shares are held in physical form for receiving dividends directly in their bank accounts through electronically.

It is important to note that as per the SEBI circular dated June 10, 2024, members with securities held in physical form must update their KYC including the PAN, Contact Details, Nomination, Bank Account Details, and Specimen Signature: Failure to meet these KYC requirements (excluding non-submission of 'choice of nomination') will result in the inability to receive dividends from April 1, 2024 onwards.

For Sun Pharmaceutical Industries Limited Anoop Deshpande

Company Secretary and Compliance Officer Place: Mumbai ICSI Membership No.: A23983 Date: June 25, 2024

"IMPORTANT"

Whilst care is taken prior to acceptance of advertising copy, it is not possible to verify its contents. The Indian Express (P) Limited cannot be held responsible for such contents, nor for any loss or damage incurred as a result of transactions with companies, associations or individuals advertising in its newspapers or Publications. We therefore recommend that readers make necessary inquiries before sending any monies or entering into any agreements with advertisers or otherwise acting on an advertisement in any manner whatsoever.

RC for Supply of Distribution Box

TPDDL/ENGG/ENQ/200001689/24-25

Years RC for SITC of IOT Based

with MCCB to Tata Power-DDL

TATA POWER DELHI DISTRIBUTION LIMITED A Tata Power and Delhi Government Joint Venture TATA POWER-DOL Regd. Office: NDPL House, Hudson Lines, Kingsway Camp, Delhi 110 009 Tel: 66112222, Fax: 27468042, Email: TPDDL@tatapower-ddl.com CIN No.: U40109DL2001PLC111526, Website: www.tatapower-ddl.com

NOTICE INVITING TENDERS

June 26, 2024

26.06.2024

TATA Power-DDL invites tenders as per following details:

Last Date & Time Estimated Availability of Bid Submission/ Tender Enquiry No. Cost/EMD of Bid Date and time of Work Description (Rs.) Document Opening of bids TPDDL/ENGG/ENQ/200001688/24-25 18.07.2024;1500 Hrs/ 26.06.2024 Annual RC for Supply of GI Pipe 18.07.2024;1530 Hrs 2,18,000 (40MM, 100MM & 150MM Dia) TPDDL/ENGG/ENQ/200001692/24-25 18.07.2024;1600 Hrs/

18.07.2024;1500 Hrs/ 18.07.2024;1530 Hrs 9,32,000 Low Voltage Automation and Grid Substation at Tata Power-DDL Site. Complete tender and corrigendum document is available on our website www.tatapower-ddl.com→Vendor Zone → Tender / Corrigendum Documents

09.75 Crs/

SHEELA FOAM LIMITED

(CIN: L74899DL1971PLC005679)

Registered Office: 604, Ashadeep, 9 Hailey Road, New Delhi 110001 Email: investorrelation@sheelafoam.com Phone: +91 11 2331 6875 Website: www.sheelafoam.com

Notice of the 52nd Annual General Meeting to be held through Video Conference (VC)/Other Audio-Visual Means (OAVM) Notice is hereby given that the 52nd Annual General Meeting (AGM)

of the Members of Sheela Foam Limited is scheduled to be held on Wednesday, 17" July 2023 at 10.00 AM through Video Conference (VC)/Other Audio-Visual Means (OAVM). In compliance with General Circular numbers 14/2020, 17/2020, 20/2020, 02/2021, 2/2022, 10/2022 and all other applicable laws and circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs (MCA), Government of India and Securities and Exchange Board of India (SEBI), to transact the business that will be set forth in the notice of the meeting.

In Compliance with the above circulars, the Notice of the Annual

General Meeting along with the Annual Report for the financial year 2023-24 is being sent only by electronic mode to those Members whose email addresses are registered with the Company/ Depositories participant(s). Shareholder holding shares in dematerialized mode are requested to register their email addresses and mobile numbers with their relevant depositories through their depositary participants. Shareholder holding shares in physical mode are requested to furnish their email addresses and mobile numbers with the Company's Registrar i.e Link Intime India Private Limited, Noble Heights, 1" Floor, Plot No. NH 2, LSC, C-1 Block, Near Savitri Market, Janakpuri, New Delhi 110058; Telephone 011-41410592,93, 011-49411000; Fax: 011-41410591; Email: delhi@linkntime.co.in; Website: www.linkintime.co.in. Members may note that the Notice of Annual General Meeting and Annual Report for the financial year 2023-24 will also be available on the Company's website www.sheelafoam.com; websites of the Stock Exchanges i.e. National Stock Exchange of India Ltd and BSE Limited at www.nseindia.com and www.bseindia.com respectively.

Shareholder will have an opportunity to cast their vote remotely on the businesses as set forth in the Notice of the AGM through electronic voting system. The manner of voting remotely for shareholders holding shares in dematerialized mode, physical mode and for shareholder who have not registered their email addresses will be provided in the Notice to the shareholders. The details will also be made available on the website of the company in the Notice. Shareholders are requested to visit www.sheelafoam.com.

Date: 25th June, 2024

Place: Noida

New Delhi

For Sheela Foam Limited

Md. Iquebal Ahmad Company secretary and Compliance Officer

financialexp.epapr.in

विकास दुबे और उसकी पत्नी के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल

नई दिल्ली, 25 जून (भाषा) ।

दाखिल किया है।

लखनऊ की धनशोधन निवारण अधिनियम धनशोधन का मामला उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा

रसीद 385 द्वारा जमा की गयी धनराशि की रसीद अपलोड करना अनिवार्य है।

(पीएमएलए) मामलों की विशेष अदालत के उनके खिलाफ दर्ज कई प्राथमिकियों के आधार समक्ष मार्च में अभियोजन शिकायत दर्ज कराई प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मंगलवार को गई और अदालत ने 29 मई को इस पर संज्ञान बताया कि उसने उत्तर प्रदेश के मारे गए लिया। ईडी ने आरोप लगाया कि जांच के मामलों की जांच में तब तेजी आई जब तीन माफिया विकास दुबे, उसकी पत्नी ऋचा दुबे दौरान पाया गया कि विकास दुबे और उसके और उसके पांच सहयोगियों के खिलाफ सहयोगी भू माफिया, रंगदारी, हत्या, जन धनशोधन रोधी कानून के तहत आरोप पत्र वितरण प्रणाली (पीडीएस) के तहत आबंटित राशि में गबन सहित विभिन्न अपराधों में संलिप्त संघीय एजंसी ने एक बयान में बताया कि थे। ईडी ने विकास दुबे और अन्य के खिलाफ

पर दर्ज किया है।

विकास दुबे के खिलाफ दर्ज आपराधिक जुलाई 2020 की आधी रात पुलिस की टीम कानपुर के बिकरु गांव में उसे गिरफ्तार करने गई और इस दौरान हुई मुठभेड़ में पुलिस उपाधीक्षक सहित आठ पुलिस कर्मी मारे गए। पुलिस के मुताबिक 10 जुलाई 2020 को विकास दुबे मुठभेड में मारा गया था।

सर्कल कार्यालयः-9बी, दूसरी मंजिल, पूसा रोड, नई दिल्ली -110060

वित्तीय संपत्तियों के प्रतिभृतिकरण और पुनर्निर्माण और सुरक्षा हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13(2) के तहत, सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम

(1) के साथ पठित नीचे हस्ताक्षरकर्ता कैपरी ग्लोबल कैपिटल लिमिटेड (सीजीसीएल) का अधिकृत अधिकारी होने के रूप में वित्तीय संपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और

पुनर्निर्माण और सुरक्षा हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (उक्त अधिनियम) के तहत सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, प्राधिकृत अधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के तहत डिमांड नोटिस जारी किए गये हैं। जिसमें

निम्नलिखित उधारकर्ताओं (ष्उक्त उधारकर्तार) से उन्हें जारी किए गए संबंधित डिमांड नोटिस में उल्लिखित राशि चुकाने के लिए कहा गया है, जो नीचे दी गई है

उपरोक्त के संबंध में, एक बार फिर उक्त उधारकर्ता को नोटिस दिया जाता है कि वह इस नोटिस के प्रकाशन से 60 दिनों के भीतर सीजीसीएल को नीचे दर्शाः

गई राशि, दिनांक से आगे लागू ब्याज के साथ भुगतान करें। उक्त उधारकर्ता द्वारा निष्पादित अन्य दस्तावेजा / लेखों, यदि कोई हो, के साथ पढ़े गए ऋण समझीत

के तहत देय भूगतान और / याँ वसूली की तारीख तक नीचे उल्लिखित है। ऋण के उचित पुनर्भुगतान के लिए सुरक्षा के रूप में, उक्त उधारकर्ता द्वारा क्रमश

यदि उक्त उधारकर्ता उपर्युक्त के अनुसार सीजीसीएल को भुगतान करने में विफल रहता है, तो सीजीसीएल उपरोक्त सुरक्षित संपत्तियों के खिलाफ अधिनियम की धारा 13(4) औ

लागू नियमों के तहत कार्रवाई करेगा, लागत और परिणामों के संबंध में पूरी तरह से उक्त उधारकर्ताओं के जोखिम पर होगा। . अधिनियम के तहत उक्त उधारकर्ताओं को सीजीसीएर

की पूर्व लिखित सहमति के बिना, बिक्री, पट्टे या अन्यथा उपरोक्त संपत्तियों को स्थानांतरित करने से प्रतिबंधित किया गया है। कोई भी व्यक्ति जो इसके तहत बनाए गए उत्त

अभिनेता नियमों के प्रावधानों का उल्लंघन करता है या उल्लंघन के लिए उकसाता है, तों अधिनियम के तहत प्रावधान के अनुसार कारावास और / या दंड के लिए उत्तरदायी होगा

सर्कल सस्त्रा केंद्र, 1—पलटन बाज़ार, क्लॉक टॉवर, देहरादून (उत्तराखण्ड)—248001

जबिक, पंजाब नैशनल बैंक की तरफ से प्राधिकृत अधिकारी ने सिक्यूरिटाईजेशन एण्ड रिकन्सट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एण्ड इनफोर्समेंट

ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13 (12) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में सिक्योरिटी इंटरेस्ट 2002 के

साथ 60 दिनों के भीतर नोटिस में निहित रकम की अदायगी हेतू एक डिमांड नोटिस जारी किया था। ऋणी के द्वारा रकम की अदायगी न करने के

कारण निम्नलिखित ऋणकर्ता एवं जन साधारण को नोटिस दी जाती है कि अधोहस्ताक्षरी ने प्रत्येक खाते के समक्ष अंकित तिथि को उक्त नियमों के

नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13 (4) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में अधोलिखित सम्पत्ति का साकेतिक कब्जा ले

लिया है। विशेषतः ऋणी एवं जन साधारण को एतद् द्वारा सतर्क किया जाता है कि वे संबंधित परिसम्पत्ति की खरीद फरोख्त न करें तथा इन

परिसम्पत्ति के किसी भी क्रय विक्रय के लिए यहाँ नीचे प्रत्येक खाते के समक्ष रकम उस पर देय ब्याज के लिए पंजाब नैशनल बैंक के प्रभार अधीन

होंगे। कर्जदार का ध्यान, प्रत्याभृत आस्तियों को छुडाने के लिए, उपलब्ध समय के संबंध में, अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (8) के प्रावधान की

बंधक सम्पत्ति का विवरण

भूतल पर सभी आवासीय संपत्ति, संपत्ति के हिस्से

देहरादून – 248001, सह अपी / वाककता – श्री केन्द्रीय दून, जिला देहरादून में सामान्य पार्किंग के अधिकार, भूतल से दूसरी मंजिल तक सीढियाँ,

प्रवीन वासुदेव पुत्र श्री राम गोपाल वासुदेव, पता । सामान्य मार्ग आदि के अधिकार के साथ पूरी भूमि में आनुपातिक हिस्सेदारी है, सामार पूर्व : दूसरों

100, नालापानी रोड़, देहरादून — 248001, पता 2 की संपत्ति, पश्चिम : श्री मोहन कांडपाल की संपत्ति, पत्ति : 22 फीट चौड़ी सड़क देशण : श्री

तिथि और राशि

19 —जून —24

चंजाब नैशनल बैंक 🔘 punjab national bank

पंजीकृत एवं कॉर्पोरेट कार्यालय:—502, टॉवर—ए, पेनिनसूला बिजनेस पार्क, सेनापति बापटमार्ग, लोअर परेल मुंबई—400013,

APRIGLOBAL कैपरी ग्लोबल कैपिटल लिमिटेड

निम्नलिखित संपत्तियां सीजीसीएल को गिरवी रखी गई हैं।

(ऋण खाता संख्या LNMEOKH000018945 (पुराना)

80400005910852 (नया) (ओखला शाखा) राज किशोर

(उधारकर्ता) श्रीमती अंजू, श्रीमती सुंदरा, राज नारायण

क्र. उधारकर्ता(ओं) /

सं. गारंटर(ओं) का नाम

स्थानः फरीदाबाद दिनांकः 26/06/2024

ओर आकृष्ट किया जाता हैं।

शाखा/ऋणी/गारन्टर

1. शाखा : क्लाक टावर, रेसक्रॉस, देहरादून

महाराष्ट्र की किसी अन्य जेल में स्थानांतरित करने के खिलाफ सलेम की याचिका खारिज

मुंबई, 25 जून (भाषा)।

सुरक्षित संपत्ति (अचल संपत्ति) का विवरण

संपत्ति का पूरा टुकड़ा और पार्सल जिसमें भूमि और भवन है, जिसका

आवासीय मकान संख्या 138, प्लॉट क्षेत्र 200 वर्ग गज, (272 वर्ग फीट

हस्ता/-(प्राधिकृत अधिकारी) कैप्री ग्लोबल कैपिटल लिमिटेड (सीजीसीएल) के लिए

मांग नोटिस

की तिथि

क्रपये 2611228 लगभग) सूर्य नगर फेज-1 आवासीय योजना, सेक्टर 91, फरीदाबाद,

...the name you can BANK upon!

करने की योजना के खिलाफ दायर की थी।

सलेम ने दावा किया कि उसे तलोजा जेल से बाहर

स्थानांतरित करने का निर्णय 'उसे मारने की साजिश' है,

क्योंकि उसकी कुछ महीनों में रिहाई संभावित है। सलेम की

याचिका में कहा गया है कि मौजूदा जेल उसके लिए बहुत

सुरक्षित है और राज्य की अन्य जेलों में बंद प्रतिद्वंद्वी गिरोहों

के सदस्य उस पर हमला कर सकते हैं। जेल प्रशासन ने

कब्जा सूचना

(अचल सम्पत्ति हेतु)

चिपकाये गये। मांग नोटिस के

अनुसार बकाया

₹0 51,47,852.75

+ब्याज एवं अन्य

खर्चे दिनांक

कब्जा नोटिस

की तिथि

प्राधिकृत अधिकारी, पंजाब नैशनल बैंक

प्रतिभूत परिसंपत्तियों के विवरण

अदालत को बताया कि उसकी मौजूदा कोठरी को फिर से बनाने की जरूरत है और तलोजा में उसके लिए कोई अन्य सुरक्षित कोठरी नहीं है। न्यायाधीश बी मुंबई की एक सत्र अदालत ने गिरोहबाज अबू सलेम की वह याचिका 🛮 डी शेल्के ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद सलेम की याचिका खारिज कर दी।

मंगलवार को खारिज कर दी, जो उसने नवी मुंबई की तलोजा जेल से महाराष्ट्र की किसी अन्य जेल में स्थानांतरित

यस बैंक लिमिटेड

पंजी. एवं कॉर्पोरेट कार्यालयः यस बैंक हाउस, ऑफ वेस्टर्न एक्स्प्रैस हाईवे, शान्ताक्रुज ईस्ट, मुम्बई-400055,

सरफैसी अधिनियम की धारा 13(2) के अंतर्गत सूचना का प्रकाशन

एतदुद्वारा सुचित किया जाता है कि नीचे वर्णित ऋणधारकों/सह-ऋणधारकों/मार्टगैजरों ने बैंक से उनके द्वारा प्राप्त की गई सुविधाओं के मूलधन तथा ब्याज के पुनर्भुगतान में चूक की है तथा उनकी सुविधा खाता को गैर-प्रचालन परिसम्पत्तियों (एन पीए) में वर्गीकृत कर दिया गया है। वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुननिर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन

प्रतिभृत परिसम्पत्ति का विवरण: 1. अपर्णा मॉल, हॉस्पीटल रोड, कोतवाली रोड, तहसील एवं जिला आगरा, उ.प्र. में स्थित सम्पत्ति शॉप नं. एफ-28 तथा एमपीएल नं. 14/328-328ए/2-3/एफ-28, प्रथम तल, छत के अधिकार के बिना जो सम्पत्ति सं. 14/328/4, 14/328ए तथा 14/328ए/2-3, एरिया माप 21.367 वर्ग मी. पर स्थित है। **चौहद्दी:** पूर्वः अन्य सम्पत्ति,

एतदुद्वारा उक्त ऋणधारक(कों), सह-ऋणधारकों/गारंटरों/मार्टगैजरों (जहाँ कहीं भी लागू हो) को निर्देश दिया जाता है कि इस सुचना के प्रकाशन की तिथि से 60 दिनों के भीतर बकाये राशि का भृगतान करें अन्यथा उक्त 60 दिनों की समाप्ति के बाद

पुनः यह आपको अवगत कराया जाता है कि सरफैसी अधिनियम की धारा 13(8) के अंतर्गत यदि सार्वजनिक

तिथि: 26.06.2024

प्राधिकृत अधिकारी यस बैंक लिमिटेड के लिये

तथा

प्राधिकृत अधिकारी,

टाटा कैपिटल लिमिटेड

✓ YES BANK

CIN: L65190MH2003 PLC143249, ईमेल: communications@yesbank.in, वेबसाईट: www.yesbank.in

अधिनियम, 2002 (सरफैसी अधिनियम) की धारा 13(2) के अंतर्गत उनके अंतिम ज्ञात पते पर उन्हें सूचना जारी की गई थी लेकिन वह अन्सर्व्ड वापस लौट आई तथा इसीलिये उन्हें इस प्रकाशन सूचना के द्वारा सूचित किया जा रहा है।

क्रम सं.	खाता सं.	ऋण का प्रकार	ऋणधारक, सह- ऋणधारकों, मार्टगैजरों का नाम	13(2) सूचना के अनुसार बकाया राशि	एनपीए की तिथि सूचना की तिथि
1	0050846000 02483 एवं (i) 050LA40202 110001	ओवर ड्राफ्ट एवं सावधि ऋण	1. मै. स्टार सुट कलैक्शन 2. श्री प्रकाश कुमार मुलानी (गारंटर एवं मार्टगैजर) 3. श्री ओम प्रकाश (गारंटर)	रू. 27,13,125.71/- (रु. सत्ताईस लाख तेरह हजार एक सौ पच्चीस पैसे इकहत्तर मात्र) 22.05.2024 को	15.04.2024 13.06.2024

पश्चिमः 1.52 मी. पैसेज, उत्तरः शॉप एफ-27, दक्षिणः शॉप नं. एफ-29

सरफैसी अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (4) के अंतर्गत अग्रिम कदम उठाया जाएगा।

नीलामी/निविदा/निजी संधि द्वारा बिक्री अथवा अंतरण के लिये निर्धारित तिथि से पूर्व किसी भी समय हमारे द्वारा वहन की गई सभी लागतों, चार्जेज एवं खर्चे के साथ हमारी देयता का भुगतान कर दिया जाता है तो प्रतिभूत परिसम्पत्ति का बिक्री अथवा

हमारे द्वारा अंतरण नहीं की जाएगी तथा प्रतिभृत परिसम्पत्ति के अंतरण अथवा बिक्री के लिये हम आगे कोई भी कदम नहीं

स्थानः उत्तर प्रदेश

टाटा कैपिटल लिमिटेड पंजीकृत कार्यालय : 11वीं मंजिल, टॉवर ए, पेनिनसुला बिजिनेस पार्क, गणपतराव कदम मार्ग, लोअर परेल, मुम्बई-400013

प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 (''नियम'') के नियम 3 के साथ पठित वित्तीय आस्तियों के प्रतिभृतिकरण तथा पुनर्निर्माण एवं प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) अधिनियम, 2002 (''अधिनियम'') की धारा 13(2) के तहत टाटा कैपिटल फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड (टीसीएफएसएल) एक गैर-बैंकिंग वित्त कंपनी है और कंपनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के तहत निगमित है और इसका पंजीकृत कार्यालय पेनिनसला बिजनेस पार्क, टॉवर ए. 11वीं मंजिल, गणपतराव कदम मार्ग, लोअर परेल, मंबई-400013 में है और अन्य स्थानों के अलावा नई दिल्ली में एक शाखा कार्यालय ('शाखा') है. का 01.01.2024 से टाटा कैपिटल लिमिटेड

एतदद्वारा सचना दी जाती है कि निम्नलिखित दायित्वकर्ता/काननी प्रतिनिधि/काननी उत्तराधिकारी (कर्जदार/सह-कर्जदार) ने टाटा कैपिटल लिमिटेड (टीसीएल) से प्राप्त मुलधन, ब्याज और अन्य शुल्कों के पुनर्भगतान में चुक की है। टीसीएल के बकाए का भुगतान करने में चुक के अनुसार आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार नीचे उल्लिखित ऋण खातों को गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों के रूप में वर्गीकत किया गया है। टीसीएल ने अपने प्राधिकृत अधिकारी के माध्यम से, वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभृतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभृति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (अधिनियम) के प्रावधानों के अनुसरण में अधिनियम की धारा 13 (2) के अंतर्गत नीचे उल्लिखित वैधानिक मांग नोटिस जारी किए हैं: जिसमें कर्जदारों को नोटिस के 60 दिनों के भीतर भावी ब्याज और लागतों सहित उक्त बकाया राशि का भगतान करने के लिए कहा गया है जिसमें विफल रहने पर टीसीएल अधिनियम की धारा 13(4) के अंतर्गत वर्णित सभी या किसी भी अधिकार का प्रयोग करेगा. जिसमें नीचे वर्णित

मंगुनियों पर नेपीपल के पथ में कर्नटारों दारा गुनिय प्रतिभूति दिन का पुतर्वन भी शामिल है।

ऋण खाता सं.	दायित्वधारी(यों) ⁄ विधिक उत्तराधिकारी(यों) ⁄ विधिक प्रतिनिधि(यों) के नाम	एनपीए की तिथि	मांग सूचना के अनुसार बकाया राशि/मांग सूचना की तिथि
21798390 TCFLA03590 00010949299 (GECL) TCFBL03860 00010923626 (BL) TCFBL03860 00010543370 (BL)	1. मेसर्स अल्पेरे टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड अपने निदेशक के माध्यम से, डी–98, ओखला औद्योगिक क्षेत्र, पीएच–1, दिल्ली–110020, 2. श्री शिव कुमार सैिकया, डी–98, ओखला औद्योगिक क्षेत्र, फेज–1, दिल्ली–110020, साथ ही: ए–107, रानी विहार, ऊर्जा विजार के पास, सेक्टर 45, फरीदाबाद हरियाणा–121010, 3. श्रीमती गायत्री जयरामन, डी–98, ओखला औद्योगिक क्षेत्र, फेज–1, दिल्ली–110020, साथ ही: 123/63, फ्लैट संख्या 2ए, ऑर्चर्ड कोर्ट रापुरम, राजाअन्नामलाईपुरम, चन्नई, तिमल नाडु– 600028, 4. श्रीमती रानी उर्फ मुथुलक्ष्मी, डी–98, ओखला औद्योगिक क्षेत्र, फेज 1, दिल्ली–110020, साथ ही: वार्ड नं. 148, थिरवेगतुम स्ट्रीट मंडलवाली चेन्नई–600023	02-05-2024	रु. 75,65,309/- तथा 05.05.2024

प्रतिभृत परिसंपत्तियों का विवरणः अनुसूची - ए - संपत्ति संख्या 1 - 1177 वर्ग फीट का फ्लैट, संख्या एस1, 'स्वागतम' नामक योजना में दूसरी मंजिल और एक कार पार्क में, साथ में 667 वर्ग फीट का अविभाजित क्षेत्र, 2400 वर्ग फीट भूमि में, क्र. सं. 70 (नया क्र. सं. 70/22, पट्टा सं. 110058 के अनुसार) वलसावरक्कम गांव, मदुरवोयल तालुका, थिरुवल्लूर, जिला और प्लॉट सं. 41, अस्थलक्ष्मी नगर, द्वितीय स्ट्रीट, वलसावरक्कम, चेन्नई- 600087 पर स्थित है और गायत्री जयरामन के पक्ष में एमओई 14.08.1990 के अनुसार बिक्री विलेख संख्या 2107 दिनांक 27.04.2018 में अधिक विवरण दिया गया है। सीमाएं : उत्तर में -वरदराजा नायकर की जमीन, दक्षिण में - 30 फीट का रास्ता अब अष्टलक्ष्मी नगर द्वितीय स्ट्रीट, पूर्व में - एस कृष्णकुमार की जमीन और दक्षिण में - श्रीमती सलोचना की जमीन।

संपत्ति संख्या 2. फ्लैट, माप 791 वर्ग फीट है और सं. ए-3, पहली मंजिल पर, ब्लॉक ए, दक्षिण विंग ब्लॉक में, 3 ग्राउंड में 6.18% अविभाजित हिस्सेदारी के साथ 1418 वर्ग फीट, पुराना सर्वेक्षण संख्या 2/2 भाग और 14 भाग, टी.एस. नं.5, ब्लॉक नं.15, पल्लीपट्ट गांव, मयलापुर, ट्रिप्लिकेन, तालुका, चेन्नई, जिला, प्लॉट नं. 4, कॉपोर्रेशन डोर नं.13, बक्तवत्सलम नगर, पहली गली, चेन्नई 600020, अधिक विवरण बिक्री विलेख संख्या 2170 दिनांक 26.11.2001 में दिया गया है, रानी उर्फ मुथुलक्ष्मी के पक्ष में। उत्तर में - डोर नं. 4, तीसरा मुख्य मार्ग, कस्तूरबा नगर, दक्षिण में - 40 फीट रोड, बक्तवत्सलम नगर, पहली गली, पूर्व में - प्लॉट नं. 4 ई, डोर नं. 14, बक्तवत्सलम नगर, पहली गली, पश्चिम में - प्लॉट नं. 3, डोर नं. 12 और 12 ए, बक्तवत्सलम नगर, पहली गली

21196044 1. मनीषा कश्यप पुत्री प्रेम पाल सिंह, सी-20ए, अरुणा पार्क, लक्ष्मी नगर, दिल्ली- 110092 03.08.2021 72,49,479/ मोबाइलः 9312138801, 2. प्रेम पाल सिंह, पुत्र श्री रूप राम, सी-20ए, अरुणा पार्क, लक्ष्मी नगर, दिल्ली-110092 अन्य पताः मकान नंबर 285/1, गली नंबर 6, बीएसईएस ऑफिस के 03.06.2024 पास, वेस्ट गुरु अंगद नगर, लक्ष्मी नगर, शकरपुर, पूर्वी दिल्ली, दिल्ली-110092, 3. स्वर्ण बाला पत्नी प्रेम पाल सिंह सी-20ए, अरुणा पार्क, लक्ष्मी नगर, दिल्ली-110092, 4. दीपक कुमार पुत्र श्री प्रेम पाल सिंह, सी-20ए, अरुणा पार्क, लक्ष्मी नगर, दिल्ली-110092, 5. मेसर्स. गणपति इंडिस्ट्रियल सॉल्युशन इसके प्रोपराइटर मनीषा कश्यप, सी-20ए, अरुणा पार्क, लक्ष्मी नगर, दिल्ली- 110092 के माध्यम से

प्रतिभूत परिसंपत्तियों का विवरण: अनुसूची-ए - छत के अधिकार के बिना छत के स्तर तक पूरी निर्मित पहली मंजिल, भिम क्षेत्र 56 वर्ग गज + 25 वर्ग गज = 81 वर्ग गज यानी 67.72 वर्ग मीटर। प्लिथ/कवर्ड क्षेत्र 67.72 वर्ग मीटर। साइट के अनसार इसकी संपर्ण संरचना, जिसमें तीन कमरे हैं, जिनमें अलग-अलग मीटर के साथ बिजली और नल के पानी के कनेक्शन लगे हैं, सामान्य प्रवेश द्वार, मार्ग और सीढ़ियां हैं, इसके अलावा, शीर्ष मंजिल की छत पर पानी की टंकी और टीवी एंटीना लगाने/रखरखाव करने का अधिकार है। खसरा नं. 45/20 में से. संपत्ति संख्या 284 और 285/1, खुरेजी खास गांव, इलाका शाह दारा, दिल्ली- 110092 के क्षेत्र में, पश्चिम गुरु अंगद नगर, लक्ष्मी नगर की आबादी में स्थित है, साथ ही नीचे की भिम पर आनपातिक अविभाजित, अविभाज्य और सभी अविभाज्य स्वामित्व अधिकार हैं, विशेष रूप से श्री दीपक कमार के पक्ष में निष्पादित उपहार विलेख में वर्णित है।

छत के अधिकार के बिना छत के स्तर तक दूसरी मंजिल का निर्माण, भूमि क्षेत्र 56 वर्ग गज + 25 वर्ग गज = 81 वर्ग गज यानी 67.72 वर्ग मीटर। 67.72 वर्ग मीटर का प्लिंथ/कवर्ड एरिया, इसकी पूरी संरचना साइट के अनुसार है, जिसमें तीन कमरे हैं, जिनमें अलग-अलग मीटर के साथ बिजली और नल के पानी के कनेक्शन लगे हैं, सामान्य प्रवेश द्वार, मार्ग और सीढियां हैं, शीर्ष मंजिल की छत पर पानी की टंकी और टीवी एंटीना लगाने/रखरखाव करने का अधिकार है, संपत्ति संख्या 284 और 285/1 का एक हिस्सा, खसरा नं. 45/20 में से, गुरु अंगद नगर, लक्ष्मी नगर के पश्चिम में ख़ुरेजी खास गांव, इलाका शाहदरा, दिल्ली- 110092 के क्षेत्र में स्थित है, साथ ही नीचे की भूमि पर आनुपातिक अविभाजित, अविभाज्य और सभी अविभाज्य स्वामित्व अधिकार हैं, जिनका विवरण विशेष रूप से श्री दीपक कुमार के पक्ष में निष्पादित उपहार विलेख में दिया गया है। सीमाः पूर्वः मुख्य सड़क, पश्चिमः संपत्ति संख्या 282, उत्तरः दूसरों की संपत्ति, दक्षिणः गली 118 फीट चौड़ा

6000833	1. पंकज आहूजा के कानूनी उत्तराधिकारी, ए-1/292, तीसरी मंजिल, जनकपुरी, दिल्ली-110058, 2. श्री	09.03.2021	₹.
	ऋषि आहूजा (कानूनी उत्तराधिकारी) स्वर्गीय श्री पंकज आहूजा के पुत्र, ए-1/292, तीसरी मंजिल,		1,04,96,937/-
	जनकपुरी, दिल्ली -110058 साथ ही: प्लॉट नंबर सी-17, ईस्ट उत्तम नगर, दिल्ली-110058, 3. सुश्री		तथा
	टीशा आहूजा (कानूनी उत्तराधिकारी) स्वर्गीय श्री पंकज आहूजा की पुत्री, ए-1/292, तीसरी मंजिल,		30.05.2024
	जनकपुरी, दिल्ली -110058 साथ ही: प्लॉट नंबर सी-17, ईस्ट उत्तम नगर, दिल्ली-110058, 4. श्रीमती		
	सीमा आहूजा (कानूनी उत्तराधिकारी) पत्नी स्वर्गीय श्री पंकज आहूजा, ए-1/292, तृतीय तल, जनकपुरी,		
	दिल्ली-110058, प्लॉट नं. सी-17, ईस्ट उत्तम नगर, दिल्ली-110058, साथ ही : आरजेड-48, इंद्रा पार्क,		
	उत्तम नगर, नई दिल्ली-110059, 5. श्री कमल आहुजा, 292, ए ब्लॉक, जनकपुरी, दिल्ली-110058,		
	प्लॉट नं. सी-17, ईस्ट उत्तम नगर, दिल्ली-110058 पर भी रहें, 6. श्रीमती रितु आहूजा, ए-1/292,		
	जनकपरी दिल्ली-110058 साथ ही : प्लॉट नं सी-17 ईस्ट उत्तम नगर दिल्ली-110058		

प्रतिभूत संपत्तियों का विवरणः अनुसूची - ए - ए1/292 तीसरी मंजिल, सामने की ओर छत सहित, जनकपुरी, दिल्ली 110058, क्षेत्रफल 180 वर्ग गज (लगभग) जिसका उल्लेख 21.02.2006 के बिक्री विलेख में किया गया है, पंकज आह्जा और सीमा आह्जा के पक्ष में सीमाएं: पूर्वः एस लेन, पश्चिमः रोड, उत्तरः प्लॉट संख्या 293, दक्षिणः प्लॉट संख्या 29

TCFLA07	ा. गंगां वर्ष गरा। वनरा उद्याग जानग प्रानराह्दर वर गां वनग रा, सागरा वर्ग जाव साग सवस	03-05-2024	₹.
27000012	कॉलोनी, मालियों की ढाणी दाधीच कॉलोनी, वार्ड नं 9 मदनगंज किशनगढ़ अजमेर, किशनगढ़,		24,50,877/-
273134	राजस्थान- 305801,		तथा
	2. स्वर्गीय नेमी चंद जींगा के कानूनी उत्तराधिकारी 575, सोंगरा का जाव रतन रावत कॉलोनी		23.05.2024
	मालियों की ढाणी दाधीच कॉलोनी वार्ड नं 9 मदनगंज किशनगढ़ अजमेर, किशनगढ़, राजस्थान-		
	305801,		
	3. गीता देवी, 575, सोंगरा का जाव रतन रावत कॉलोनी, मालियों की ढाणी दाधीच कॉलोनी वार्ड		
	नं ९, मदनगंज किशनगढ़ अजमेर, किशनगढ़, राजस्थान- 305801, 4.राहुल असर 1, 575,		

प्रतिभूत परिसंपत्तियों का विवरण: अनुसूची - ए- आवासीय संपत्ति प्लॉट संख्या 30-ए, खसरा संख्या 297/2764 का भाग, 135 वर्ग गज माप, उंतरा फाटक के बाहर, दाधीच कॉलोनी, वार्ड संख्या 09, मदनगंज, किशनगढ़, अजमेर, राजस्थान में स्थित, जिसका अधिक विवरण

उपर्युक्त मांग सूचना की प्रभावी सेवा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से, हम सार्वजनिक सूचना के माध्यम से उक्त नोटिस की सेवा प्रभावी कर रहे हैं। उपरोक्त कर्जदारों को अधिनियम की धारा 13(2) के तहत इस नोटिस के 60 दिनों के भीतर उपर्युक्त देनदारियों का निर्वहन करने के लिए कहा जाता है, जिसमें विफल रहने पर टीसीएल अधिनियम की धारा 13(4) के तहत सभी या किसी भी अधिकार का प्रयोग करेगा। प्रासंगिक रूप से, कर्जदारों को यह भी नोटिस दिया जाता है कि अधिनियम की धारा 13(13) की शर्तों के अनुसार, वे बिक्री, पट्टे या अन्यथा उपरोक्त प्रतिभूत परिसंपत्तियों को हस्तांतरित नहीं करेंगे।

कार्यालय जिला समाज कल्याण अधिकारी, सुलतानपुर

निविदा आमंत्रण सुचना

ई-प्रोक्योरमेंट/ई-टेण्डर (अल्पकालिक निविदा सूचना) एतदुद्वारा सुचित किया जाता है कि समाज कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा संचालित मा० मुख्यमंत्री सामुहिक विवाह योजनान्तर्गत वर्ष 2024-25 हेत वांछित सामग्री की आपर्ति एवं आयोजन व्यवस्था हेत आनलाइन ई-निविदा आमंत्रित की जाती है, जिसका विवरण एवं नियम व शर्ते वेबसाइट पर देखा जा सकता है। सामग्री की आपूर्ति में जमानत धनराशि रू0-2,000,00.00 का एफ०डी०आर० (जिला समाज कल्याण अधिकारी के पक्ष में) एवं आयोजन व्यवस्था में जमानत धनराशि रू0- 1,20,000.00 का एफ॰डी॰आर॰ (जिला समाज कल्याण अधिकारी के पक्ष में) तथा

इच्छुक निविदादाता/फर्म प्रति निविदा प्रपत्र शुल्क रू0-500.00 समाज कल्याण विभाग में नकद के रूप में जमा की गयी धनराशि के सापेक्ष रसीद 385 के रूप में प्राप्त कर उक्त निविदा में भाग ले सकते हैं। अन्य जानकारी एवं नियम व शर्ते वेबसाइट http//etender.up.nic.in पर अथवा कार्यालय जिला समाज अधिकारी सुलतानपुर से प्राप्त की जा सकती है।

प्रष्ठांकन सं०:- C-385/स०क०/ई-निविदा/सामृ०वि०/2024-25

जिला समाज कल्याण अधिकारी, सुलतानपुर



टाटा कैपिटल लिमिटेड जि. कार्यात्यः 11वीं अंजिल, टावर ए, पैनिनस्ला बिजनेस पार्क, गणपतराव टाटा कदम मार्ग, लीभर परेल, मुम्बल-400013, बी 36. प्रथम और डितीय मंजिल, एवडीएक्सी बैंक के ऊपर, लाजपत नगर 2

वर्क दिल्ली 110024

अस्य खाता संख्याः TCHHL0399000100005708 और TCHINO399000100006045 एततदारा आम जनता को और विशेष रूप से श्री विविधन जोसेफ ब्रायन कोरेयालियास विविध जोसेफ डोमिनिक कोरेया (उद्यारकर्ता), और श्रीमती खाराचीन गचुड्रवो शां (सह-उधारकर्ता / गारंटर) और उनके कानूनी उत्तराधिकारियों / प्रतिनिधियों को सूचित किया जात है कि टाटा कॅपिटल हाउसिंग फाइनेंस लिगिटेड (टीसीएचएफएल) के प्राधिकृत अधिकारी : सरफेसी अधिनियम 2002 के तहत उचित प्रक्रिया का पालन करते हुए, अचल संपत्ति का भौतिव कब्जा ले लिया है. जिसका विशेष रूप से नीचे अनुसूची ए में वर्णन किया गया है, जे टीसीएसएफएल के पास बंधक है। कई नोटिस देने के बावजूद आप उक्त परिसर में पढ़े सामान हटाने में विफल / उपेक्षित रहे हैं। इसलिए, इस नीटिस के माध्यम से आपको इस नीटिस प्रकाशन की तारीख से 07 (सात) दिनों के भीतर अञ्चल संपत्ति में पढ़े सामान को हटाने का अंतिम अवसर दिया जाता इसके लिए प्राधिकृत अधिकारी और टीसीएथएफएल जिम्मेदार नहीं होंगे। कृपया ध्यान दें कि हमने संपत्ति में पढ़े सामान को बेचने के लिए खरीदार की पहवान कर ली हैं. आपकी तरफ से कोई जवाब नहीं मिलने पर हम अपना बकाया चसुलने के लिए संपत्ति

अनुसूची ए

आवासीय प्लॉट संख्या ए--333 की पूरी तीसरी मंजिल, ब्लॉक ए, जिसका क्षेत्रफल 123,356 वर्ग मीटर यानी 1327,80 वर्ग फीट है, जो गांव घड़ा, इलाके में रिधत है जिसे संशांत लोक 11, तहसील सोहना जिला गुडगांव (हरियाणा) के नाम से जाना जाता है, जिसमें बिक्री विलेख के तहत सभी सामान्य सर्विधाएं है। प्लॉट संख्या ए ३३३ की सीमा इस प्रकार है – पूर्व प्लॉट संख्या ए ३३६ पश्चिम प्लॉट संख्या ए ३३४, उत्तर प्लीट संख्या ए ३३६, दक्षिण शेंड।

दिनांक:- 26/06/2024, रवान:- गुरुवाम (दिल्ली एनसीआर)

हरता/- पाधिकत अधिकारी टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के लिए

जेएमएस इंफ्रा रियलिटी प्राइवेट लिमिटेड

कॉर्पोरेट/रजि. ऑफिस : प्लॉट नं. 2380-एसपी सेक्टर-46, गुरुग्राम-122002 हरियाणा, ई—मेल : crm@jmsgroup.co.in टेलीफोन :+91-124-4215130 सीआईएन : U45209HR2019PTC082137

सार्वजनिक सूचना

हम मेसर्स जेएमएस इंफ्रा रियलिटी प्राइवेट लिमिटेड, एक अफोर्डेबल आयासीय प्लॉटेड कॉलोनी की स्थापना के लिए महानिदेशक, नगर एवं ग्राम नियोजन, हरियाणा, वंडीगढ द्वारा दिए गए लाइसेंस संख्या 49 / 2023 दिनांक 09.03.2023 के अनुसार गांव ढोरका, सेक्टर–95, जिला गुरुग्राम में 10.7875 एकड क्षेत्र में एक अफोर्डेबल आवासीय प्लॉटेड कॉलोनी के विकास की प्रक्रिया में हैं।

और जबकि, पिछला लेआउट प्लान ड्राइंग संख्या डीटीसीपी-9064 दिनांक 10.03.2023, जो लाइसेंस संख्या 49/2023 दिनांक 09.03.202 के साथ प्राप्त हुआ था, को संशोधित किया जाना आवश्यक था, जिसके लिए मेसर्स जेएमएस इंफ्रा रियलिटी प्राइवेंट लिमिटेड ने संशोधित लेआउट-कम-डिमार्केशन योजना के लिए आवेदन किया था और इसके लिए प्रोविजनल अनुमोदन मेमों संख्या ZP-1882/PA(DK)/2024/18522 दिनांक 21.06.2024 के माध्यम से प्राप्त हुआ है, जिसका ड्राइंग नंबर DTCP-10296 दिनांक 21.06.2024 है।

और जबकि, जिला नगर योजनाकार के कार्यालय महानिदेशक, नगर एवं ग्राम नियोजन, हरियाणा, चंडीगढ के कार्यालय ने संशोधित लेआउट-कम-डिमार्केशन योजना के अंतिम अनुमोदन की अनुमति देने के लिए पूर्व शर्त के रूप में मीजूदा आवंटियों से लेआउट-कम-डिमार्केशन योजना के संशोधन के खिलाफ आपत्तियां मांगना आवश्यक माना है।

तदनुसार, इस सार्वजनिक सुचना के माध्यम से उक्त अफोर्डेबल आवासीय प्लॉटेंड कॉलोनी के संशोधित लेआउट-कम-डिमार्केशन योजना प्राप्त होने पर उक्त अफोर्डेबल आवासीय प्लॉटेंड कॉलोनी में किसी भी मौजूदा आवंटी से आपत्तियां आमंत्रित की जाती हैं। पूर्व में स्वीकृत लेआउट योजना और संशोधित लेआउट-कम-डिमार्केशन योजना की एक प्रति हमारे कॉर्पोरेट कार्यालय और हमारी वेबसाइट https://jmsthepearl.co.in पर अवलोकन के लिए उपलब्ध है। उक्त संशोधित लेआउट-कम-डिमार्केशन योजना का अवलोकन वरिष्ठ नगर नियोजक के कार्यालय, हुडा कार्यालय परिसर, सेक्टर 14, गुरुग्राम में भी किया जा सकता है।

भौजुदा आवटियों में से किसी को भी संशोधित लेआउट-कम-डिमार्केशन योजना पर कोई आपत्ति है तो वह इस सूचना प्रकाशन के 30 दिनों के भीतर वरिष्ठ नगर नियोजक के कार्यालय, हुडा कार्यालय परिसर, सेक्टर 14, ग्रुग्राम में अपनी आपत्ति दर्ज करा सकता है, ऐसा न करने पर यह मान लिया जाएगा कि प्रस्तायित संशोधित लेआउट-कम-डिमार्केशन योजना पर कोई आपत्ति नहीं है।

स्थान : गुरुग्राम दिनांक : 26.06.2024

मेसर्स जेएमएस इंफ्रा रियलिटी प्राइवेट लिमिटेड

शीला फोम लिमिटेड

(सीआईएन: L74899DL1971PLC005679) पंजीकृत कार्यालय : 604, आशादीप, 9 हेली रोड, नई दिल्ली–110001 ई-मेल: investorrelation@sheelafoam.com फोनः +91 11 2331 6875 वेबसाइट: www.sheelafoam.com

वीडियो कॉन्फ्रेंस (वीसी)/अन्य ऑडियो विडियो माध्यम (ओएवीएम) के माध्यम से आयोजित होने वाली 52वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना

एतदद्वारा सुचित किया जाता है कि सामान्य परिपन्न सं. 14 / 2020, 17 / 2020, 20 / 2020, 02 / 2021, 2 / 2022, 10 / 2022 एवं अन्य सभी लागू नियमों और कार्पोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए), भारत सरकार और भारतीय प्रतिभृति और विनिमय बोर्ड (सेबी) द्वारा जारी परिपत्रों के अनुपालन में बैठक की सूचना में निर्धारित कामकाज के निष्पादन के लिए शीला फोम लिमिटेड के सदस्यों की 52वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) बुधवार, 17 जुलाई, 2024 को प्रातः 10.00 बजे विडियो कॉन्फ्रेंस ("वीसी")/अन्य ऑडियो विजुअल माध्यम ("ओएवीएम") के द्वारा आयोजित की जाएगी।

उपरोक्त परिपत्रों के अनुपालन में, वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए वार्षिक रिपोर्ट के साथ वार्षिक आम बैठक की सूचना उन सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम द्वारा भेजी जा रही है जिनके ई-मेल पते कम्पनी / डिपॉजिटरीज प्रतिमागियों के पास पंजीकृत हैं। डिमेटिरियलाइज्ड प्रारूप में शेयर धारण करने वाले शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे अपना ई-मेल पता और मोबाइल नम्बर अपने डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के माध्यम से अपने संबंधित डिपॉजिटरीज के पास पंजीकृत कराएं। फिजिकल प्रारूप में शेयर धारण करने वाले शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे अपना ई—मेल पता एवं मोबाइल नम्बर कम्पनी के रजिस्ट्रार अर्थात् लिंक इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, नोवल हाइट्स, प्रथम तल, प्लॉट नं. एनएच-2, एलएससी, सी-1 ब्लॉक, नजदीक सावित्री मार्केट, जनकपुरी, नई दिल्ली-110058, टेलीफोन: 011-41410592,93, 011-49411000; फैक्स: 011-41410591; ई-मेल: delhi@linkntime.co.in; वेबसाइट: www.linkintime.co.in. के पास पंजीकृत कराएं । सदस्यगण कृपया नोट करें कि वार्षिक आम बैठक की सूचना और वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए वार्षिक रिपोर्ट कम्पनी की वेबसाइट www.sheelafoam.com और स्टॉक एक्सचेंजों अर्थात नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड और बीएसई लिमिटेड की वेबसाइट क्रमशः www.nseindia.com एवं www.bseindia.com पर भी उपलब्ध होगी।

शेयरधारकों के पास इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम के माध्यम से एजीएम की सूचना में निर्धारित कामकाज पर रिमोटली अपना वोट देने का अवसर होगा। डिमेटिरियलाइज्ड प्रारूप, फिजिकल प्रारूप में शेयर धारण करने वाले शेयरधारकों और शेयरधारक जिन्होंने अपना ई-मेल पता पंजीकृत नहीं कराया है, के लिए रिमोट वोटिंग की प्रक्रिया शेयरधारकों के लिए सूचना में उपलब्ध कराई जाएगी। विस्तृत ब्यौरा कम्पनी की वेबसाइट पर सूचना में भी उपलब्ध होगा। शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे वेबसाइट www.sheelafoam.com

कृते शीला फोम लिमिटेड दिनांकः 25 जून, 2024 (मो. इकबाल अहमद) कपनी सचिव तथा अनुपालन अधिकारी स्थान : नोएडा

स्थान – देहरादुन दिनांकः 25.06.2024

रोड़, देहरादून— 248001, पता 😘 ३६, गुरूद्वारा रोड़, करनपुर, देहरादून — 248001

लेन न्ं0 1, ब्लॉक डी, अमन विहार, सहस्त्रधारा उनियाल जी की संपत्ति

ऋणधारकों / सह-ऋणधारकों / गारंटरों

के नाम तथा एनपीए की तिथि

खाता संख्या UP/KNP/KANP/A000001436 -

COICPC/CPOF/A000000887

ऋण खातों को 06/03/2024 को एनपीए के रूप में वर्गीकृत किया गया है

श्री अखिलेश सैनी, श्री रेखा सैनी, दोनों का पता : निवासी 118 ईडब्ल्यूएर

खाता संख्या UP/KNP/KANP/A000000481 -

CO/CPC/CPOF/A000000221

ऋण खातों को 06/03/2024 को एनपीए के रूप में वर्गीकृत किया

गया है

बर्रा ७, बर्रा ७, अर्बन, कानपुर, उत्तर प्रदेश, भारत — 208027

दिनांक : 26–06–2024, स्थान : उत्तर प्रदेश

पत्नी श्री प्रवीन वासुदेव, पता 1. 100 नालापानी रोड, क्षेत्रफल 111.52 वर्ग मीटर के भूमि निर्माण भाग में

देहरादून — 248001, 2 36, गुरुद्वारा रोड़, करनपुर, शामिल (पूर्णतः निर्मित), जो मौजा कंडोली, परगना

हिंदुजा हाउसिंग फाइनेंस लिभिटेड निगमित नार्यालय : नं. 167-169, द्वितीय तल, अन्ना सलाई, सैदापेट, चेन्नई-600015 त्तीय तल, 101/1, आरएस टॉवर, मंगल पांडे नगर, सीसीएस यूनिवर्सिटी के समीप, मेरत, उत्तर प्रदेश-250004

त्र**ऋणी / बंधककर्ताः − 1.** श्रीमती सनीता नेगी वासदव का खसरा नंबर 16 (पुराना खसरा नंबर 1 / 1), 09.04.2024 25.06.2024

आरएलएम श्री अरुण कुमार सिंह 9506011777, सीएलएम–सोनम मिश्रा 9368111464, आरआरएम– श्री पुष्कर अवस्थी 9453043399, सीआरएम मितेश मिश्रा 9555269296 वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 (सरफेसी अधिनियम) की धारा 13(2) के अंतर्गत सूचना

हिंदुजा हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के माध्यम से निम्न उल्लिखित ऋणधारकों / गारंटरों द्वारा प्राप्त किये गये ऋणों के संबंध में, जो कि निम्नांकित तिथियों पर बकाया निम्नांकित शेष राशि के साथ एनपीए बन गये हैं। हम ने पहले ही वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभृतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभृति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 13(2) के अंतर्गत निम्नांकित तिथि के अनुसार विस्तृत मांग सूचना पंजीकृत डाक / स्पीड पोस्ट / कूरियर द्वारा आपको देय पावती के साथ निर्गत की थी, जो बिना वितरित हुये वापस आ गयी है / पावती प्राप्त नहीं हुयी है। हम ने उस स्थिति में अधिनियम की धारा 13(4) के अनुसार आप में से किसी एक के स्वामित्व वाली प्रतिभूतियों को अपने अधिग्रहण में लेने का अपना इरादा दर्शाया है, जब यदि आप 60 दिनों की समयावधि में निम्न उल्लिखित राशि का भुगतान करने में विफल रहते हैं। यदि आप यहां इसमें ऊपर उल्लिखितानुसार दायित्व का निर्वहन नहीं करते हैं, तो बैंक / प्रतिभृत ऋणदाता सरफॉएसि अधिनियम की धारा 13(4) के अंतर्गत प्रदत्त किसी भी अधिकार का प्रयोग कर सकते हैं तथा सरफॉएसि अधिनियम के अंतर्गत आवश्यकानुसार इलेक्ट्रॉनिक रूप में अथवा अन्यथा अधिग्रहण सूचना 🖊 नीलामी सूचना प्रकाशित करते समय, बैंक 🖊 प्रतिभूत ऋणदाता आपका चित्र भी प्रकाशित कर सकते हैं। विवरण निम्नानुसार प्रस्तुत हैं ::-

मांग सूचना तिथि

बकाया राशि

XI.	F 111 11 11 3 1 11 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	वयगया सारा	
1.	श्रीमती माधुरी देवी, श्री सूरज कुमार, दोनों का पता : निवासी हाउस नंबर—109, यशोदा नगर, गोपाल नगर, कानपुर नगर, उत्तर प्रदेश—208011, किदवई नगर मेट्रो, कानपुर, उत्तर प्रदेश, भारत — 208011 खाता संख्या UP/KNP/KANP/A000001042 ऋण खातों को 06/03/2024 को एनपीए के रूप में वर्गीकृत किया गया है	मांग सूचना तिथि 06.05.2024 बकाया राशि रु. 1,059,316/— 06.04.2024 के अनुसार + ब्याज + कानूनी शुल्क	भूखंड सं.—8 के समस्त वह भाग तथा अंश, जो अरजी नंबर—165, गंगापुर, कानपुर नगर, उत्तर प्रदेश—208021, गंगापुर, मेट्रो, कानपुर, उत्तर प्रदेश, भारत — 208021, प्लॉट एरिया — 34.65 वर्ग मीटर, सीमा : पूर्व— प्लॉट नंबर 9—ए, पश्चिम—40 फुट रोड, उत्तर— प्लॉट नंबर 9—बीटी, दक्षिण— प्लॉट नंबर 7
2.	श्री वरुण कुमार, श्रीमती मुस्कान सरोज, दोनों का पता : निवासी 117 / 393 पी काकादेव हितकारी नागा, काकादेव शहरी, कानपुर, उत्तर प्रदेश, भारत — 208025 खाता संख्या. UP/KNP/KANP/A000002042 ऋण खातों को 06 / 03 / 2024 को एनपीए के रूप में वर्गीकृत किया गया है		अरजी नंबर 988 के समस्त वह भाग तथा अंश जो प्लॉट नंबर 171 स्कीम नंबर 4ए दहेली सुजानपुर, दहेली, अर्बन, कानपुर, उत्तर प्रदेश, भारत 208025 में स्थित है, क्षेत्रफल 167.22 वर्ग मीटर, सीमा : पूर्व— खाली प्लॉट, पश्चिम— 9.14 मीटर रोड, उत्तर— अन्य भूमि निवासी जय बहादुर सिंह, दक्षिण— मकान नंबर 4ए170 कमल सिंह
3.	श्री अभिषेक कुमार पांडे, श्री हर्षित पांडे, दोनों का पता : निवासी 132 कृष्णा नगर उन्नाव, उन्नाव उत्तर प्रदेश मेट्रो, कानपुर, उत्तर प्रदेश, भारत – 209801 खाता संख्या. UP/KNP/KANP/A000001628 & CO/CPC/CPOF/A000000076 ऋण खातों को 06/03/2024 को एनपीए के रूप में वर्गीकृत किया गया है		अरजी नं. 5004 के समस्त वह भाग तथा अंश जो अनादर नगर पालिका उन्नाव, उन्नाव, ग्रामीण, उन्नाव, उत्तर प्रदेश, भारत — 209801 में स्थित है, क्षेत्रफल 127.09 वर्ग मीटर, सीमा : पूर्व— सूरज का प्लॉट, पश्चिम— बीरपाल सिंह का मकान, उत्तर— 18 फुट रोड, दक्षिण— सुनील कुमार मिश्रा का मकान
4.	श्री अजय प्रताप सिंह, श्रीमती रुचि सिंह, दोनों का पता : निवासी : पूरन नगर दयाराम बिगया उन्नाव, उन्नाव शहरी, कानपुर, उत्तर प्रदेश, भारत—209801 खाता संख्या UP/KNP/KANPIA00001059 — CO/CPC/CPOF/A000001515 ऋण खातों को 06/03/2024 को एनपीए के रूप में वर्गीकृत किया गया है	मांग सूचना तिथि 28.03.2024 बकाया राशि रु. 1,377,914/— 10/03/2024 के अनुसार + ब्याज + कानूनी शुल्क	सं. 515 / 1132 के समस्त वह भाग तथा अंश जो पूरन नगर, उन्नाव मेट्रो, कानपुर, उत्तर प्रदेश, भारत 209801 में स्थित, क्षेत्रफल— 125.42 वर्ग मीटर, सीमा : पूर्व— 20 फुट रोड, पश्चिम— अन्य प्लॉट, उत्तर— उमा शंकर का प्लॉट, दक्षिण— उमा शंकर का प्लॉट, विषण—
5.	श्री सागर कनौजिया, श्री सुरेखा कनौजिया, श्री रेखा कनौजिया सभी का पता : निवासी 18ई शिवकटरा राजीव नगर कानपुर, राजीव नगर, शहर, कानपुर, उत्तर प्रदेश, भारत — 208007 खाता संख्या UP/KNP/KANP/A00000565 — UPIKNP/KANP/A000001702 ऋण खातों को 06/03/2024 को एनपीए के रूप में वर्गीकृत किया गया है	मांग सूचना तिथि 28.03.2024 बकाया राशि रु. 1,238,638/— 10/03/2024 के अनुसार + ब्याज + कानूनी शुल्क	अरजी सं. 18 के समस्त वह भाग तथा अंश जो कमालपुर, लाल बंगला, अर्बन, कानपुर, उत्तर प्रदेश, भारत — 208007 में स्थित है, क्षेत्रफल— 171.87 वर्ग मीटर, सीमा : पूर्व— मकान नं. ए—482, पश्चिम— मकान नं. ए—484, उत्तर— मकान नं. ए—450, दक्षिण— 6 मीटर चौड़ी सड़क।
6.	श्री धर्मेंद्र कुमार, श्री प्रियंका गुप्ता, श्री जितेंद्र कुमार, सभी का पता : निवासी अरजी नं. 651 मझरा पीपर खेड़ा गैर एहत माली परगना हदाहा शुक्लागंज उन्नाव, शुक्लागंज, मेट्रो, उन्नाव, उत्तर प्रदेश, भारत — 209861 खाता संख्या UP/KNP/KANP/A000001298 — CO/CPC/CPOF/A000000232 ऋण खातों को 06/03/2024 को एनपीए के रूप में वर्गीकृत किया गया है	मांग सूचना तिथि 28.03.2024 बकाया राशि रु. 1,053,279/— 10/03/2024 के अनुसार + ब्याज + कानूनी शुल्क	अरजी सं. 651 के समस्त वह भाग तथा अंश जो मझरा पीपर खेड़ा गैर एहत माली परगना हदाहा शुक्लागंज उन्नाव, शुक्लागंज, मेट्रो, कानपुर, उत्तर प्रदेश, भारत — 209861 में स्थित है, क्षेत्रफल— 63.17 वर्ग मीटर, सीमा : पूर्व— अरजी मुकीर, पश्चिम— रास्ता 18 फुट, उत्तर— रास्ता 15 फुट, दक्षिण— प्लॉट अन्य
7.	श्री अविनाश कुमार, श्री पंचा देवी, श्री शिव कुमार, सभी का पता : निवासी अरजी संख्या 15, निजी प्लॉट नंबर 8, न्यू आजाद नगर, सतबारी, कानपुर नगर, उत्तर प्रदेश—208021, कानपुर, मेट्रो, कानपुर, उत्तर प्रदेश, भारत — 208021	मांग सूचना तिथि 28.03.2024 रु. 1,030,245/— 10/03/2024 के	अरजी नं. 15 के समस्त वह भाग तथा अंश, जो निजी प्लॉट नं. 8, न्यू आजाद नगर, सतबरी, कानपुर नगर, उत्तर प्रदेश –208021, कानपुर, मेट्रो, कानपुर, उत्तर प्रदेश –208021 में

www.readwhere.com

मांग सूचना तिथि

28.03.2024

बकाया राशि रु. 982,591/-

उपर्युक्त ऋणधारकों / गारंटरों को सलाह दी जाती है कि (1) अधिक तथा पूर्ण विवरणों के लिये अधोहस्ताक्षरकर्ता से मूल सूचना प्राप्त करें तथा (2) सरफेसी अधिनिय

के अंतर्गत भावी कार्रवाई से सुरक्षित रहने हेत् उपरोक्त संदर्भित सूचना की तिथि से 60 दिवसों की समयाविध में शेष राशि का ब्याज तथा लागतों, इत्यादि सहित

10 / 03 / 2024 के अनुसार + ब्याज

प्राधिकृत अधिकारी, हिंदुजा हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

प्लॉट नं. 9, पश्चिम— प्लॉट नं. 7, उत्तर— अरजी

संपत्ति अर्थात् आई.ई.आर. 118 ए के समस्त वह

भाग तथा अंश जो ईडब्ल्यूएस बर्रा 7, बर्रा 7,

शहर, कानपुर, उत्तर प्रदेश, भारत — 208027 में

स्थित, क्षेत्रफल- 38.83 वर्ग मीटर, सीमा : पूर्व-

मकान नं. ए-119, पश्चिम- मकान नं. ए-117,

उत्तर— मकान नं. ए–87, दक्षिण– 6.00 मीटर

का भाग, दक्षिण— 30 फुट सड़क।

अनुसार + ब्याज + कानूनी शुल्क || स्थित, क्षेत्रफल- ४१.८१ वर्ग मीटर, सीमा : पूर्व-

दिनांकः 24.06.2024

स्थानः दिल्ली और चेन्नई

सोनगरा का जाव रतन रावत कॉलोनी मालियों की ढाणी दाधीच कॉलोनी वार्ड नं 9 मदनगंज किशनगढ़ अजमेर, किशनगढ़ राजस्थान-305801

पट्टा विलेख संख्या 1550 दिनांक 24.01.2023 में, स्वर्गीय नेमी चंद पुत्र श्री खेता राम के पक्ष में।